

## हिन्दी पखवाड़ा-2018

प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी इन द्वीपों में हिन्दी पखवाड़ा-2018 मनाए जाने के सिलसिले में अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के सभी विभागों, महाविद्यालयों और विद्यालयों में कई कार्यक्रम और प्रतियोगिताएँ आयोजित किए गए और 14 सितम्बर, 2018 को हिन्दी दिवस मनाया गया।

राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए प्रशासन के सभी कार्यालयों में बैनर लगाए गए। सचिव (राजभाषा) की अपील स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई जिसमें प्रशासन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अपना अधिक से अधिक शासकीय कार्य राजभाषा हिन्दी में करने की अपील की गई।

हिन्दी पखवाड़ा-2018 के प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत करने के लिए पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के सचिव (राजभाषा) श्री मणिकंडन (भा.प्र.से.) ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कारों और प्रमाणपत्रों से सम्मानित किया।

इस दौरान अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के कर्मचारियों के लिए हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें राजभाषा नीति और नोडल अधिकारी(राजभाषा) के कार्यों तथा उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में जानकारी दी गई।



प्रशासन के अधिकारियों के लिए आयोजित हिन्दी कार्यशाला में श्री मणिकंडन (भा.प्र.से.), सचिव(राजभाषा), अ. तथा नि. प्रशासन



हिन्दी कार्यशाला में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए श्री मणिकंडन(भा.प्र.से.), सचिव(राजभाषा), अ. तथा नि. प्रशासन



हिन्दी कार्यशाला में भाग लेते हुए प्रशासन के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण



वाकपट्टा प्रतियोगिता में भाग लेते हुए विद्यार्थी

इस सिलसिले में अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के राजभाषा विभाग द्वारा पोर्ट ब्लेयर के मुख्यालय क्षेत्र के बंगला और तेलुगु माध्यम के विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए हिन्दी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और पोर्ट ब्लेयर मुख्यालय के सभी माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए वाकपटुता प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके अलावा मुख्यालय क्षेत्र के महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों के लिए स्वरचित कविता पाठ आयोजित किया गया।

इसके अतिरिक्त प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हिन्दी में टिप्पण और आलेखन प्रतियोगिता तथा कर्मचारियों के लिए टंकण प्रतियोगिता भी आयोजित की गई।

राजभाषा हिन्दी के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए पखवाड़े के दौरान पोर्ट ब्लेयर के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा राजभाषा हिन्दी पर तैयार फिल्म दिखलाई गई।

इसी प्रकार से मध्य तथा उत्तर अण्डमान और निकोबार जिला में भी इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया गया।



प्रतियोगिता में भाग लेते हुए अ. तथा नि. प्रशासन के कर्मचारी



विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कार प्राप्त करते हुए विद्यालय, महाविद्यालय के विद्यार्थी तथा अ. तथा नि. प्रशासन के अधिकारी